

## T+0 और त्वरति नपिटान चक्र

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

**भारतीय प्रतभूति और वनिमिय बोरड (SEBI)** द्वारा नधियों एवं प्रतभूतियों के लिये वैकल्पिक **T+0 (उसी दिन)** तथा तत्काल नपिटान चक्र के लिये एक नई प्रणाली प्रस्तावित की गई है। यह प्रणाली द्वितीयक बाजारों में इक्विटी नकदी खंड के लिये मौजूदा **T+1 (एक दिन का ट्रेड प्लस)** नपिटान चक्र का पूरक होगी।

- SEBI **यूनफाइड पेमेंट इंटरफेस** जैसे व्यापक रूप से उपयोग किये जाने वाले तात्कालिक भुगतान विकल्पों को अपनाकर स्टॉक ट्रेडिंग में लचीलेपन के लिये आधुनिक नविकरणों की इच्छाओं को बेहतर ढंग से समायोजित करना चाहता है।

### प्रतभूति बाजार में नपिटान चक्र क्या है?

- नपिटान चक्र में **T**: वित्तीय बाजारों के भीतर नपिटान चक्रों में "T" उस दिन को संदर्भित करता है जिस दिन लेनदेन या व्यापार होता है।
  - इस संदर्भ में "T" लेनदेन की तारीख का प्रतिनिधित्व करता है। नपिटान चक्र, जिस "T+n" के रूप में दर्शाया जाता है, लेन-देन की तारीख (T) के बाद के दिनों की संख्या निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा व्यापार का नपिटान या समापन होता है।
- नपिटान चक्र का विकास: SEBI ने नपिटान चक्र को वर्ष 2002 में T+5 से छोटा करके T+3 और उसके बाद वर्ष 2003 में T+2 कर दिया।
  - वर्तमान में भारत में नधियों और प्रतभूतियों का नपिटान T+1 चक्र पर होता है, जिस वर्ष 2021 तक चरणबद्ध किया गया तथा जनवरी 2023 तक पूर्ण रूप से लागू किया गया।
- नए नपिटान चक्रों के लिये SEBI के प्रस्तावित चरण:
  - चरण 1: T+0 नपिटान चक्र:**
    - दोपहर 1:30 बजे तक के ट्रेड/व्यापारों के लिये एक वैकल्पिक T+0 नपिटान चक्र की कल्पना की गई है, जिसका लक्ष्य उसी दिन शाम 4:30 बजे तक फंड और प्रतभूतियों का नपिटान करना है।
  - चरण 2: त्वरति नपिटान चक्र:**
    - इसका लक्ष्य अपराह्न 3:30 बजे तक व्यापार के साथ, फंड/नधि और प्रतभूतियों सहित, एक वैकल्पिक कति तात्कालिक व्यापार-दर-व्यापार नपिटान करना है।
  - SEBI ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 500 सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के लिये तीन कशितों (200, 200,100) में T+0 नपिटान चक्र के प्रारंभिक रोलआउट का प्रस्ताव दिया है।
    - यह पहल बदलते भारतीय प्रतभूति बाजार के अनुरूप है, जो बढ़ती संख्या, मूल्यन/भाव तथा प्रतभागियों पर आधारित है।
- लाभ:
  - ग्राहक:** यह विक्रेताओं के लिये प्रतभूतियों के लिये धन के त्वरति भुगतान को सक्षम बनाता है तथा भुगतान हेतु बेहतर लचीलेपन की प्रस्तुत करता है।
  - प्रतभूति बाजार पारस्थितिकी तंत्र:** त्वरति भुगतान से बाजार पारस्थितिकी तंत्र की दक्षता एवं तरलता को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।